

सोमवार, 4 सितंबर 2023

पृष्ठ-3

श्रीकंपनपथ

छत्तीसगढ़

खास खबर

भाजपा कार्यकर्ता गिनाएंगे केंद्र सरकार के काम



कोरबा। भारतीय जनता पार्टी मंडल दर्दी के स्थानीय मुंजु शक्ति केंद्र राजीव नगर बस्ती और कोसालाड़ी के एमपी नगर शक्ति केंद्र की बैठक हुई। बैठक में भूथों और शक्ति केंद्र को मजबूत करने और जनसर्कर के केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं को जन-जनक तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। बैठक में भाजपा प्रत्याशी लखन देवांग ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। निश्चित ही मोदी सरकार 9 साल में अपेक्षित है कि इन स्थानीय कार्यक्रमों के लिए आवेदन भरने का काम किया जाए। जनक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हासी सभी कार्यकर्ताओं की है। इस दौरान पूर्व जिल उपाध्यक्ष तुलसी ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष हितानन्द अग्रवाल, अजय विश्वकर्मा, ईश्वर साहू प्रशुभ तिवारी, नारायण सिंह ठाकुर, दिनेश वैष्णव सुमन सेनी, नरेंद्र पाण्डवारा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

सुनील सामादास के नेतृत्व में कौहान्दा और आशा निकेतन में किया गया वृक्षारोपण

रायगढ़। नगर के कौहान्दा और आशा निकेतन बुद्धा अश्रम में फ्लूटार, फ्लूटार और छायादार पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर स्थानीय बुद्धाश्रम के पुरुष एवं महिला वरिष्ठ जन के बीच मिठाया व बिस्कुट का वितरण किया गया। उक्त बुद्धाश्रम के अंतर्गत इंटरनेशनल एफएडवांस्मेंट्स टेक्नोलॉजी (एपाइएमटी) राजीव, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी कालिकट और एनआईटी कर्नाटक में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती होगी।

भर्ती को लेकर नेशनल टेरेस्ट्रिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से कॉम्पन

ग्राम उन्नयन के शिविर में 383 नरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया

बेमेत्र। ग्राम उन्नयन में आयुर्वेद विभाग ने ब्लॉक स्तरीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया। जिला आयुर्वेद अधिकारी वीणा मिश्रा के निर्देशान्वय, शिविर प्रभारी चिकित्सक डॉ. स्वाति शर्मा के मार्गदर्शन में लगाए गए शिविर में ग्राम के अलावा आसपास के ग्रामीण पहुंचे। डॉ. स्वाति शर्मा ने बताया कि 383 मरीजों की शुगर जॉन्स का वितरण किया गया, जिसमें 85 मरीजों की मार्गदर्शन के लिए रिक्षा चालक, डॉ. स्वाति शर्मा, डॉ. ममता गवर, डॉ. प्रकाश चंद्र प्रसाद, योग प्रशिक्षक अशीष तवाली, मंशराम पैकरा समेत अन्य लोग उपस्थित थे।

मालगुड़ी डेज, पंचतत्व, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे सीरियल हमारी कला और संस्कृति को सहेजते हैं - क्षितिज चंद्राकर

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। आईटी, लिटेचर एंड फिल्म फेरिट्वल इवेंट में प्रदेश अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर प्रमुख रूप से शामिल हुए। डॉ. प्रोफेसर लक्ष्मण के अध्यक्ष क्षितिज चंद्राकर ने इस अवसर पर कहा कि देश में आज एक तरह का नरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग हमारी कला, संस्कृति को मात्राम बनाकर देश को विभाजित करे का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने एक फिल्म का जिक्र करते हुए कहा कि आज के दौर में जो चल रहा है, वो सबके समाने है।

एक पिंकर आई थी, हमारे महान देश के महान राज्य पर फिल्म बनी थी। काई भी आई का फर्म हो, देश और समाज को जोड़ने का काम करता है। ऐसा हमें करना भी चाहिए, लेकिन ये जो पिंकर आई, उसने हमारे समाज

देश के 5 टेक्नीकल इंस्टीट्यूट में 369 पदों पर होगी भर्ती

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) रायपुर समेत देश के 5 टेक्नीकल इंस्टीट्यूट में 369 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इनमें ऑफिस अटीडेंस, सुप्रीमिटेंट, टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन से लेकर असिस्टेंट रिस्ट्रायर तक के पद शामिल हैं। 12वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

एनआईटी रायपुर में 60 पदों पर भर्ती होगी। इसी तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिवांग्स मेन्यूफैक्रिंग टेक्नोलॉजी (एपाइएमटी) राजीव, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी कालिकट और एनआईटी कर्नाटक में नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती होगी।

भर्ती को लेकर नेशनल टेरेस्ट्रिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से कॉम्पन



रिक्स्टरमेंट एजाम फैर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ डिवांग्स एवं राजीव टेक्नोलॉजी (एपाइएमटी) राजीव, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी कालिकट और एनआईटी कर्नाटक में प्रियोरिटी अध्यर्थियों के लिए 500 रुपए निर्धारित हैं। वेबसाइट crent.creamart.samarth.ac.in पर आवेदन से संबंधित विस्तृत दशा-

लिए। 12 सितंबर तक आवेदन भरे जाएं। जबकि वेटनरी असिस्टेंट समेत देश के लिए 7 सितंबर से भरे जाएं। परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। पहले चयन में परीक्षा होगी। यह 300 नवारों के लिए होगी। जबकि चयन के दूसरे चयन में 30 नवार का इंटरव्यू होगा।

विस्तृत निवेश वेबसाइट <https://psc.cg.gov.in> पर जारी किए गए हैं। परिवहन इंस्ट्रीट्रियूट विभाग में परिवहन उप निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर भर्ती होगी। इसी तरह पुश्यन विभाग विभाग में विभिन्न तकनीशियन की भर्ती होगी। इसके लिए व्यापार से परीक्षा होगी। कुल 188 पदों की भर्ती होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10? सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। 11 से 13 सितंबर तक त्रिटी सुधार किए जा सकते हैं। 24 सितंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस पद के लिए पीसीसी से परीक्षा ली जाएगी। परिवहन उप निरीक्षक भर्ती के लिए गवर्नर की बात है कि हमारी बच्ची तनुप्रिया दता ने अबूधाबी इंटरनेशनल यूथ एमएम प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मैडल जीता, जहाँ देश के 16 प्रतियोगियों में केवल तीन को मैडल जीतने का अवसर मिला।

जगदलपुर। प्रदेश के यथावृत्ती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने खेल प्रतिभाव की धर्मी धर्मी होगी। यह ब्रह्मांड योगी विभाग (तकनीकी) छत्तीसगढ़ के तहत हैं। अवृथाबी में आयोजित इंटरनेशनल यूथ मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मैडल जीती है। इससे हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुण्यल दता एवं डॉली दता की ओर से योग्यता देखी रही है।

यह ब्रह्मांड योगी विभाग की बात है कि यह हमारे देश के लिए गवर्नर की बात है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की धर्मी धर्मी होगी। यह ब्रह्मांड योगी विभाग के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10? सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। 11 से 13 सितंबर तक त्रिटी सुधार किए जा सकते हैं। 24 सितंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस पद के लिए वाराहीं विभाग में 15-15 पदों पर भर्ती के लिए गवर्नर की बात है कि हमारी बच्ची तनुप्रिया दता ने अबूधाबी इंटरनेशनल यूथ एमएम प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मैडल जीता, जहाँ देश के 16 प्रतियोगियों में केवल तीन को मैडल जीतने का अवसर मिला।

जगदलपुर। प्रदेश के यथावृत्ती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने खेल प्रतिभाव की धर्मी धर्मी होगी। यह ब्रह्मांड योगी विभाग (तकनीकी) छत्तीसगढ़ के तहत हैं। अवृथाबी में आयोजित इंटरनेशनल यूथ मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मैडल जीती है। इससे हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुण्यल दता एवं डॉली दता की ओर से योग्यता देखी रही है।

यह ब्रह्मांड योगी विभाग की बात है कि यह हमारे देश के लिए गवर्नर की बात है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की धर्मी धर्मी होगी। यह ब्रह्मांड योगी विभाग के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10? सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। 11 से 13 सितंबर तक त्रिटी सुधार किए जा सकते हैं। 24 सितंबर को परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस पद के लिए वाराहीं विभाग में 15-15 पदों पर भर्ती के लिए गवर्नर की बात है कि हमारी बच्ची तनुप्रिया दता ने अबूधाबी इंटरनेशनल यूथ एमएम प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मैडल जीता, जहाँ देश के 16 प्रतियोगियों में केवल तीन को मैडल जीतने का अवसर मिला।

जगदलपुर। प्रदेश के यथावृत्ती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने आयोजित इंटरनेशनल यूथ मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मैडल जीती है। इससे हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुण्यल दता एवं डॉली दता की ओर से योग्यता देखी रही है।

यह ब्रह्मांड योगी विभाग की बात है कि यह हमारे देश के लिए गवर्नर की बात है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की धर्मी ध

वन अधिकार मान्यता के क्रियान्वयन में देश में अत्यल छत्तीसगढ़

श्रीकंचनपथ न्यूज़

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता ऑफिसियल का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंजा के अनुरूप प्रभावी और सर्वेदारीलता के साथ क्रियान्वयन हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में आदेवरी - वनवासियों सहित गरीब तथा कमजोर वर्ष के समस्त लोगों को कापी राहत मिली है, और उनकी आधिक रिश्ति भी सुडृढ़ हुई है। अम जन के सराकर के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं वन संरक्षण को उन्हीं से यह वन अधिकार मान्यता प्राप्त अर्थात् ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।

विकास तथा कलस्टर के माध्यम से हितग्राहियों को अधिकारिक लाभ के उद्देश्य से अनेक योजनाओं के माध्यम से मदद पहुंचाई गई है। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संक्षक व्हैं। श्रीनिवास राव से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें छत्तीसगढ़ीयों को वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य की जनहितकारी योजनाओं जैसे निजी भूमि पर बाईबेक गारंटी के साथ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, फसल विविधता को प्रोत्साहित करने के लिये धन के बलें अन्य रोपण हेतु प्रोत्साहन राशि का प्राविधान आदि से भी जोड़ा जा रहा है। इसके तहत भूमि विकास का प्रथम वर्ष रूप प्रति हितग्राही कृषि उत्पाद बढ़ गया है और अनेक प्रकार के आय-मूलक फसलों (कैश कॉफ़) का उत्पादन भी उन क्षेत्रों में किया जा रहा है। जिसके कारण हितग्राहियों का आजीविक उन्नयन भी सुनिश्चित हुआ है। साथ ही साथ इससे वन सुरक्षा के प्रति जनता का संैराकरण सामने आया है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

इसी तरह राज्य में सामुदायिक वन अधिकार के लिए भूमि समतालीकरण, जल संसाधनों का

संबंध में कुल 5 लाख 17 हजार 096 हितग्राहियों के बन अधिकार पत्र प्रदाय किये गये हैं। व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र प्रदाय करने में छत्तीसगढ़ राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। इसके अंतर्गत हितग्राहियों के समग्र विकास

के लिए भूमि समतालीकरण, जल संसाधनों का

अंतर्गत कुल 46000 प्रकरणों को मान्यता प्रदान की गई है, जो कि देश में सर्वाधिक है। इसके अंतर्गत वनांकतों में निवासरत जन समुदाय को प्रदान करने के लिये धन के बलें अधिकार जैसे गोंगा वन उत्पाद संबंधी अधिकार मछली व अन्य जल उत्पाद तथा चारागाह अधिकार विशेष पिछड़ी जाति एवं समुदायों

क्षेत्रों को आवास अधिकार, सभी वन ग्रामों पुरुने रहवास क्षेत्रों, असंकेवित ग्राम आदि को राजस्व ग्राम में बदलने के अधिकार, आदि जास्तियों के बलावा वनांकल क्षेत्र में पाये जाने वाले लघु वनोंपर संग्रहण के लिये 67 प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है और इस वर्ष छ.ग. राज्य वन

अधिकार विभाग देश में संवेदन करते हुये प्रबंधन के

देश में संग्रहण करने के लिये वार्षिक एवं व्यक्तिगत विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में कुल 4306 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदाय किये गये हैं। वन संसाधन अधिकार के प्रबंधन हेतु मान्यता प्रदान करने में छत्तीसगढ़ राज्य देश का प्रथम राज्य है, जहां व्यापक यैमान पर वन वासियों के अधिकारों के संरक्षण की ध्यान में रखते हैं। इस अधिकार पत्र प्रदाय किये गये हैं। वन संसाधन अधिकार के तहत वाम सभा को प्रदान करने के लिये धन सभा विभाग वाले वन क्षेत्रों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। उक वनों के प्रबंधन हेतु प्रबंध योजना तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है। जिसके लिये 19 जिलों के लगभग 2000 ग्रामों के विधायिक प्रदान करने वाले वायामी आयोजन के साथ एकीकृत तैयार हो गये हैं। उक वनों के प्रबंधन हेतु प्रबंध योजना में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार विभाग देश में छत्तीसगढ़ीयों के लिये वार्षिक एवं व्यक्तिगत विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य का 24 जिलों में लगभग 106 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 5492 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं।

इसी तरह राज्य में सामुदायिक वन अधिकार

के लिए भूमि समतालीकरण, जल संसाधनों का

अधिकार विभाग देश में संवेदन करते हुये प्रबंधन के

देश में संग्रहण करने के लिये वार्षिक एवं व्यक्तिगत विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य का 24 जिलों में लगभग 106 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 5492 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं।

इसी तरह राज्य में सामुदायिक वन अधिकार

के लिए भूमि समतालीकरण, जल संसाधनों का

अधिकार विभाग देश में संवेदन करते हुये प्रबंधन के

देश में संग्रहण करने के लिये वार्षिक एवं व्यक्तिगत विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य का 24 जिलों में लगभग 106 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 5492 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं।

इसी तरह राज्य में सामुदायिक वन अधिकार

के लिए भूमि समतालीकरण, जल संसाधनों का

अधिकार विभाग देश में संवेदन करते हुये प्रबंधन के

देश में संग्रहण करने के लिये वार्षिक एवं व्यक्तिगत विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य का 24 जिलों में लगभग 106 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 5492 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं।

इसी तरह राज्य में सामुदायिक वन अधिकार

के लिए भूमि समतालीकरण, जल संसाधनों का

अधिकार विभाग देश में संवेदन करते हुये प्रबंधन के

देश में संग्रहण करने के लिये वार्षिक एवं व्यक्तिगत विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य का 24 जिलों में लगभग 106 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 5492 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं।

इसी तरह राज्य में सामुदायिक वन अधिकार

के लिए भूमि समतालीकरण, जल संसाधनों का

अधिकार विभाग देश में संवेदन करते हुये प्रबंधन के

देश में संग्रहण करने के लिये वार्षिक एवं व्यक्तिगत विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य का 24 जिलों में लगभग 106 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 5492 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं।

इसी तरह राज्य में सामुदायिक वन अधिकार

के लिए भूमि समतालीकरण, जल संसाधनों का

अधिकार विभाग देश में संवेदन करते हुये प्रबंधन के

देश में संग्रहण करने के लिये वार्षिक एवं व्यक्तिगत विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य का 24 जिलों में लगभग 106 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 5492 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं।

इसी तरह राज्य में सामुदायिक वन अधिकार

के लिए भूमि समतालीकरण, जल संसाधनों का

अधिकार विभाग देश में संवेदन करते हुये प्रबंधन के

देश में संग्रहण करने के लिये वार्षिक एवं व्यक्तिगत विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य का 24 जिलों में लगभग 106 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 5492 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं।

इसी तरह राज्य में सामुदायिक वन अधिकार

के लिए भूमि समतालीकरण, जल संसाधनों का

अधिकार विभाग देश में संवेदन करते हुये प्रबंधन के

देश में संग्रहण करने के लिये वार्षिक एवं व्यक्तिगत विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य का 24 जिलों में लगभग 106 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 5492 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं।

इसी तरह राज्य में सामुदायिक वन अधिकार

के लिए भूमि समतालीकरण, जल संसाधनों का

अधिकार विभाग देश में संवेदन करते हुये प्रबंधन के

देश में संग्रहण करने के लिये वार्षिक एवं व्यक्तिगत विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य का 24 जिलों में लगभग 106 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 5492 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं।

इसी तरह राज्य में सामुदायिक वन अधिकार

के लिए भूमि समतालीकरण, जल संसाधनों का

अधिकार विभाग देश में संवेदन करते हुये प्रबंधन के

देश में संग्रहण करने के लिये वार्षिक एवं व्यक्तिगत विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य का 24 जिलों में लगभग 106 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 5492 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं।

इसी तरह राज्य में सामुदायिक वन अधिकार

के लिए भूमि समतालीकरण, जल संसाधनों का

अधिकार

खास - खबर

नवधा रामायण पारायण पाठ के तीसरे दिन 1500 से अधिक भक्त शामिल हुए



दुर्ग। कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के लिए प्रसिद्ध राधाकृष्ण मंदिर महेश कांगोली में नवधा पारायण रामायण पाठ और विष्णु महायज्ञ के दूसरे दिन करीब 1500 से अधिक ब्रह्मांडलु शामिल हुए। जोधपुर के पं. गोपाल असामा और पं. सुशील आसोपा ब्रह्मांडलुओं को नवधा रामायण का सामूहिक पाठ करवाया। भक्तों ने बालकांड की चौपाईयों का पाठ किया। इस अवसर पर भगवान श्रीराम के भजनों की प्रस्तुति पर भक्त भावविभूर छोड़ दिया है। दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ रामायण पाठ तक कीरीब 8 बजे तक चलता रहा। अतिथि में समिति के प्रमुख चतुर्भुज राठी ने बताया कि रामायण पाठ के बीच सीता स्वरबंध भी मायान गया।

आयोजन समिति के पदाधिकारियों के साथ विधिवत् समाप्त के लिए जन्माष्टमी की। सभी को भोग तो सामाद बाटा गया। रामायण पाठ रोजाना दोपहर 2.30 बजे से 6.30 बजे तक जारी है। विष्णु महायज्ञ आचार्य पं। पवन द्विवेदी के सानिध्य में हो रहा है।

रविवार को महायज्ञ में यजमानों के साथ ही भक्त भी शामिल हुए। सभी ने महायज्ञ की परिवार की आयोजन समिति ने ज्यादा से ज्यादा धर्मप्रेमियों से रामायण पाठ में उपस्थिति की अपील की है। साहू समाज उरला, कसीधन वैश्य समाज, राजवुर छत्रिय समाज, अग्रहर वैश्य समाज, माझेश्वरी महिला मंडल याधुपुर, महिला ब्राह्मण समाज भाटापारा विशेषज्ञ उपस्थिति और मंदिर सदय फेमेन टावरी, रवि राठी, जिवेश राठी, राधेशम चांडक, दीपक चोपडा, मुकेश राठी सहित अन्य उपस्थिति रहे।

बीएसपी कर्मियों को सेपटर-4 सोसाइटी का लाभांश वितरण 12 से

भिलाई। बीएसपी एप्मलाइज को ऑपरेटर एंड वेलफेयर सोसाइटी लिमिटेड सेक्टर-4 के भिलाई स्टील प्लांट के सदय कर्मियों को लाभांश का वितरण 12 सितंबर से किया जाएगा। सोसाइटी के अध्यक्ष अशोक कुमार परगनिहानी ने बताया कि लाभांश एवं व्याज का वितरण लगातार 11 नवंबर तक चलेगा। उहोंने बताया कि सदयों की सुविधा को देखते हुए लाभांश वितरण अवधि पूरे दो माह की रखी गई है।

अपराह्न 3 से शाम 6:30 बजे तक सदयांश सेक्टर-4 सोसाइटी पहुंच कर लाभांश ले सकते हैं। निर्धारित तिथि में छह सदयों को सिर्फ सेवाराको अवसर मिलेगा। शासकीय अवकाश के दिन लाभांश-व्याज वितरण कार्य नहीं होगा। जो सदय निर्धारित तिथि में नहीं पहुंच पाएंगे वे नववर्ष-23 से स्पैसरी-24 के बीच माने के आधारी ससाह में 25 से 31 तारीख तक कार्यालयीन समय में लाभांश प्राप्त कर सकते हैं। सदयों को सोसाइटी की पासबुक के साथ अपनी पासपोर्ट साइज की दो फोटो एवं कार्यालयीन कार्ड की गेटपारा लाना होगा। सोसाइटी की ओर से उपाध्यक्ष अशोक राठी, असमंज परवान, संचालक मंडल सदयांश विधिपन बंधेर, पुरुषोत्तम सिंह कंवर, पूर्णलाल देवांगन, जानकी राठी, सतानंद चंद्राकर, शशीभूषण सिंह, नितिश साहू और वेद प्रकाश सुर्यवंशी ने सदय संख्या दिया है। इस दिवस पर सदयों से सोसाइटी पहुंच कर लाभांश लेने की अपील की है।

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर / भिलाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य में महिला सुरक्षा के प्रति बेहत संवेदनशील हैं। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भूपेश के निर्देशों के अनुसार महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून का सख्ती से पालन किया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है और अपराधों पर कठी कार्यवाही की जा रही है। इसके लिए राज्य के प्रत्येक थाने में एक महिला सेल का गढ़ तात्परा पाठ तक चलता रहा। अतिथि में योग्यता की आरती की गई है। महिलाओं के संवंधित अपराधों की खतरनाक जांच भी की जा रही है।

महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ये घोषणा की थी कि महिला अपराध से उपस्थिति की सानिध्य में हो रहा है।

निःशक्त बच्चे दिखाएंगे अपनी प्रतिभा, जीई फाउंडेशन देगा मंच



श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सामाजिक सेवा संस्थान गोल्डन एंपर्शी (जीई) फाउंडेशन की ओर से अंचल के निःशक्त बच्चों की प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से 'अधिव्यक्ति' की उड़ान' कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।

10 सितंबर की शाम होने वाले इस कार्यक्रम की तैयारियां जरों पर चल रही हैं।

जीई फाउंडेशन के संयोजक प्रदीप पिल्लई के साथ तमाम सहयोगी आयोजन स्थल कला मंदिर में तैयारियों को पहुंचाएँगे।

प्रदीप पिल्लई ने बताया कि आयोजन में दुर्ग भिलाई सहित आसपास के अंचल के 11 विशेष स्कूलों के बच्चे हिस्सा लेंगे। जिसमें बच्चे अपनी सांस्कृतिक प्रत्युतियों देंगे।

उहोंने बताया कि आयोजन को लेकर सभी स्कूलों से संवर्धन कर लिया गया है और बच्चे कला मंदिर के मंच पर प्रस्तुत होने अपनी तैयारी कर रहे हैं।

लगातार चौथे वर्ष होने वाले इस आयोजन में भिलाई स्टील प्लाट, जिला व पुलिस प्रशासन और संस्कृत सीमा बन (एसएसबी) के आला अफसरों सहित शहर के कई गणमान्य विशिष्ट अंतिथ शामिल होंगे।

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। साक्षरता चौक से लेकर प्रियदर्शिनी परिसर अंडर ब्रिज रोड तक हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है। आगर सर्विस रोड को चालू कर दिया जाए तो यह बहुत हद तक हादसे का खतरा कम हो सकता है। शासन प्रशासन और सामाजिक कार्यक्रमों की मांग है यहां की सर्विस रोड को खोला जाए। यहां सर्विस रोड जो अवधि करके लोग गाड़ियों को खड़ा किए हैं उसे हटाया जाए और आवागमन को सुगम बनाया जाए।

इसी रोड पर लाल बहादुर सास्त्री हायरिंप्रिल ल है वहां तक लोगों को आवागमन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

जाने उल्टी दिशा में जाना पड़ता है। जिससे आपने सामान गाड़ियों के बीच हमेशा हादसा होने का खतरा बना रहता है। इसलिए आप नागरिकों की मांग है कि साक्षरता चौक से लेकर लाल बहादुर तक इस सर्विस रोड को सही कर दिया जाए। जिससे 18 नम्बर सड़क से निकल कर या पिर चंद्रा-मौर्य अंडरब्रिज से निकल कर अस्पताल की ओर

सड़क को सही किया जाए और आवागमन की सुविधा बहाल की जाए। इसी तरह छानी चौक पर लगातार रहते हुए जाने की जागीरी।

जिससे आपने गाड़ियों वाली तरीकी से जाना पड़ता है।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

जिससे आपने गाड़ियों को सही तरीकी से जेबरा लोग बहादुर तक आगे प्रवाहित कर सकते हैं।

ज